

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 1969/फाल्गुन 21, 1890

No. 47] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 1969/PHALGUNA 21, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND  
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi the 12th March 1969

G.S.R. 812.—**Sugar Export.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food), GSR No 1901/Sugar Export, dated the 25th October, 1968, namely:—

In the said notification, for the figures and words "31st day of March, 1969", the figures and words "30th day of November, 1969" shall be substituted.

[No. F. 10-3/68-SEXP.]

K. L. PASRICHA, Jt. Secy.

( 229 )

